

## प्रेस कान्फ्रेंस/सराहनीय कार्य दिनांक 22 .06.2022

**मीडिया/सोशल मीडिया सेल के माध्यम से तकनीकी जानकारी एकत्रित करके दो फर्जी संस्थानों का पर्दाफाश किया गया, जनपदीय एसओओजीओ/सर्विलांस एवं थाना डुमरियागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के फर्जी मार्कशीट(ओओ लेवल, एओ लेवल, सीओसीओसीओ, एनटीटी, योग आदि) बनाने/जारी करने वाले गिरोह के 02 अवैध संस्थानों के संचालकों को गिरफ्तार कर कब्जे से कई फर्जी मार्कशीट, मुहर, परीक्षा के प्रश्नपत्र व लिखित कॉपियां एवं मार्कशीट बनाने के उपकरण बरामद ।**

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि डुमरियागंज सर्किल क्षेत्र में कुछ संस्थानों द्वारा छात्रों से धन लेकर विभिन्न कोर्सों के मार्कशीट बगैर परीक्षा में सम्मिलित हुए ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उक्त सूचना को तत्काल संज्ञान लेकर डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही हेतु अविलम्ब एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं महत्वपूर्ण जानकारी हेतु मीडिया/सोशल मीडिया सेल सिद्धार्थनगर से समन्वय स्थापित कर श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में श्री सूर्यभान सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज, श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एसओजीओ द्वारा श्री रामसूरत निजी आईटीआईओ कॉलेज के प्रबंधक श्याम चौधरी से पूछताछ किया गया एवं संस्थान के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र माँगा गया तो कोई भी वैध प्रमाण नहीं दिखाया एवं संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र की जांच में समस्त दस्तावेज/मार्कशीट फर्जी मिले उसकी निशानदेही पर उसके संस्थान की जांच राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करने पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के फर्जी मार्कशीट जैसे :- ओओ लेवल, एओ लेवल, सीओसीओसीओ, एनटीटी, पीजीडीसीए, डीसीएओ बॉम्बे आर्ट, योग आदि की मार्कशीट एवं वो परीक्षाएं जो केवल ऑनलाइन माध्यमों से संचालित होती हैं, उनकी भी प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिकाएं तथा कुछ ऐसी मार्कशीट जो, ऐनआईईएलटीओ द्वारा ही जारी की जा सकती हैं व श्री राम सूरत एपेक्स इंस्टिट्यूट एंड टेकनोलॉजी द्वारा निर्गत प्राप्त हुई जिसके पंजीयन संख्या की जांच की गई तो फर्जी मिले, श्री राम सूरत एपेक्स इंस्टिट्यूट एंड टेकनोलॉजी संस्थान की मान्यता इत्यादि के संबंध में कोई भी वैध कागजात दिखने में असमर्थ रहा ।

पूछताछ में संस्थान में ही फर्जी मार्कशीट बनाने के उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, पेन ड्राइव्स, फिंगर प्रिण्ट स्कैनर एवं विभिन्न परीक्षा प्राधिकारी संस्थाओं के मुहर इत्यादि मिले । संस्थान में ही एक अन्य कमरे में आईटीआईओ कोर्स से संबंधित उपकरण भी मिले, पूछताछ में प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उसकी एक अन्य संस्था श्री राजाराम कम्प्यूटर एंड टेकनोलॉजी कस्बा बुढ़ऊ त्रिलोकपुर में भी है वहां भी फर्जी मार्कशीट इत्यादि का काम होता है, वहां प्रबंधन का कार्य रमेश यादव देखता है, टीम द्वारा वहाँ पहुंचकर रमेश यादव से पूछताछ कर वहां से भी कुछ फर्जी मार्कशीट, कंप्यूटर, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, पेन ड्राइव्स, प्रवेश पत्र बरामद किया गया । कल दिनांक 21.06.2022 समय लगभग सायंकाल 09:00 (21:00) बजे दोनों संस्थानों को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष सील किया गया, व दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना डुमरियागंज में मुओअसंख्या 118/2022 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471 भादविओ पंजीकृत करआवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पुलिस टीम द्वारा पूछताछ :-** पुलिस टीम द्वारा कड़ाई एवं वैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का दो इंस्टिट्यूट(1-श्री राम सूरत एपेक्स इंस्टिट्यूट एंड टेकनोलॉजी व 2- श्री रामसूरत निजी आईटीआईओ कॉलेज) है, जहां हमलोग छात्र/परिजन जब आते हैं और कोर्स के संबंध में जानकारी लेते हैं तो हम लोग बताते हैं यदि आप पैसा दें तो हम लोग तुरंत ही मार्कशीट उपलब्ध करा सकते हैं । हम लोग पैसा लेकर छात्रों को विश्वास दिलाने के लिए अपने संस्था की वेबसाइट पर उनका प्रवेश पत्र कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाकर उनको दे देते हैं, वो परीक्षा जो ऑनलाइन माध्यमों से होती हैं, हम लोग छात्रों को बताते हैं कि लेट पेमेंट जमाकर हम यहीं ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करा देंगे, हमलोग किताबों से प्रश्नपत्र कॉपी कर बना लेते हैं एवं डुमरियागंज में कॉपी एवं मुहर छपवा व बनवा लेते हैं एवं परीक्षा कराकर अपने संस्था के नाम से फर्जी पंजीयन क्रमांक व रोल नंबर आदि डालकर अपने कलर प्रिण्टर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्कशीट बनाकर दे देते हैं । कुछ कोर्सों की मार्कशीट हम लोग फैजाबाद के एक प्रतिष्ठित संस्थान से मंगाते हैं जो एनटीटीओ, योग इत्यादि की मार्कशीट महर्षिदयानन्द संस्थान के नाम से देते

हैं। कुछ लोगों को सीसीसी एवं अनुभव प्रमाण पत्र भी देते हैं, उनके द्वारा पूर्व में जिन अभियर्थियों को मार्कशीट निर्गत की गई है, उनके भी नाम पता बताया गया है, जिसकी जांच प्रचलित है कि कहां कहां मार्कशीटों का प्रयोग किया गया है।

### नाम पता अभियुक्तगण-

- 1- **श्याम जी चौधरी** पुत्र रामसुरत निवासी रमवांपुर उर्फ नेबुआ थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर (प्रबन्धक- रामसूरत अपेक्स इन्स्टीच्युट आफ टेक्नोलॉजी रमवापुर नेबुआ डुमरियागंज)
- 2- **रमेश यादव** पुत्र राजाराम यादव निवासी मधुकरपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

### बरामदगी विवरण-

- |                                   |                                      |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| ● 24 अदद अंकपत्र                  | ● 05 अदद लैपटाप                      | ● 01 अदद कार्डरीडर         |
| ● 24 अदद प्रमाणपत्र               | ● 20 अदद डेस्कटाप कम्प्यूटर मय उपकरण | ● 01 अदद पेन ड्राइव        |
| ● 100 अदद पंजीकरण फार्म           | ● 01 अदद डेड बैटरी                   | ● 1000 पम्पलेट             |
| ● 17 अदद स्टैम्प मुहर             | ● 01 अदद कलर प्रिन्टर (EPSON)        | ● 100 अदद प्रास्पेक्टस     |
| ● 12 अदद परीक्षा की लिखित कापियां | ● 01 अदद फिंगरप्रिन्ट स्कैनर         | ● 05 अदद बुकलेट (फीस रसीद) |
| ● 12 अदद आवेदन पत्र भरा हुआ       | ● 01 अदद हार्डडिस्क                  | ● 1500/- नगद               |

### तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उप निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, प्रभारी मीडिया/सोशल मीडिया सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
2. आ० मनीष कुमार जायसवाल सोशल मीडिया सेल सिद्धार्थनगर
3. आ० अमित यादव सोशल मीडिया सेल सिद्धार्थनगर
4. आ० विवेक जायसवाल सोशल मीडिया सेल सिद्धार्थनगर
5. आ० देवेश यादव सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर
6. आ० अभिनन्दन सिंह सर्विलांस जनपद सिद्धार्थनगर
7. आ० अतुल चौबे साइबर टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

### गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

- 01- श्री सूर्यभान सिंह, थानाध्यक्ष थाना डुमरियागंज मय टीम।
- 02- श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस०ओ०जी० जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- श्री शेषनाथ यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- उ०नि० श्री अजय सिंह, थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- महिला उप निरीक्षक श्रीमती शाइस्ता खां, थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 06- मु०आ० राजीव शुक्ला, मु०आ० रमेश यादव, आ० पवन तिवारी, आ० मृत्युंजय कुशवाहा, आ० अरुण सिंह उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा रुपये 15,000/- नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

**प्रेस नोट दिनांक 22.06.2022**

**05 अदद चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अदद देशी तमंचा संग 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण/गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में तथा श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष भवानीगंज के नेतृत्व में विगत रात्रि दिनांक 21/22-06-2022 को थानाध्यक्ष भवानीगंज मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र रात्रि गश्त, तलाश वांछित अपराधी, तलाश वारण्टी थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि सिलोखरा रोड से पिरैला जाने वाली रोड पर मो० जलील अब्बासी इण्टर कालेज के दक्षिण स्थित ग्राम बयारा में निष्प्रयोज्य भवन में दो व्यक्ति दोपहिया वाहनों को छिपाकर रखे हैं, जिन्हे किसी साधन द्वारा नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में है, यदि शीघ्रता की जाये तो चोरो के साथ- साथ वाहनों को भी बरामद किया जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुंचकर कर थानाध्यक्ष भवानीगंज द्वारा मय हमराहियान के सहयोग से उक्त निष्प्रयोज्य भवन को घेर लिया गया और जैसे ही टार्च की रोशनी भवन में डाली गयी कि दो व्यक्ति जो चोरी की मोटर सायकिलों को नेपाल ले जाने की व्यवस्था बना रहे थे, भागने का प्रयास किये जिन्हे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया तथा बारी बारी से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः अरविन्द कुमार उर्फ राज पुत्र श्री परमात्मा प्रसाद निवासी चकमारुफ थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर व अभिषेक भट्ट उर्फ मुन्ना पुत्र राजेश भट्ट ग्राम चकमारुफ थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर बताये। भागने का कारण पूछने पर बताये थे कि हमलोगों द्वारा चोरी की मोटर सायकिले यहाँ छिपाकर रखे थे और नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में थे कि पकड़ गये। कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताये कि हमलोगों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलों के नम्बर प्लेट बदल कर नेपाल ले जाकर बेच देते हैं। विगत लगभग 02 माह पूर्व थाना क्षेत्र सोनहा जनपद बस्ती के कन्धुई चौराहे से चोरी कर कुछ दिन बाद जनपद बहराइच के थानाक्षेत्र पयागपुर में लावारिस छोड़ देने की बात भी स्वीकार किये। उपरोक्त अभियुक्तगण को समय 02:10 बजे मय माल गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना भवानीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-**

- 1- अरविन्द कुमार उर्फ राज पुत्र श्री परमात्मा प्रसाद निवासी चकमारुफ थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर
- 2- अभिषेक भट्ट उर्फ मुन्ना पुत्र राजेश भट्ट ग्राम चकमारुफ थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

**बरामदगी का विवरण-**

- 1- हिरो स्पलेण्डर प्रो चेसिस न0- MBLHA10ASC9M00872 इ०न०- HA10ELC9M00812 बिना नम्बर प्लेट।
- 2- हिरो स्पलेण्डर प्लस चेसिस न0- MALHAROB2HHJ78743 इ०न०- HA10AGHHJG2684 बिना नम्बर प्लेट।

- 3- हिरो स्पलेण्डर चेसिस न0- MALHA 10AMEHD64140 , इ0न0- HA 10EJEHD09238 रजि० न० प्लेट UP 51 E 2950 लगा है ।
- 4- हिरो स्पलेण्डर प्लस चेसिस न0- MBLHA10EE8HN15546 . इ0न0- HA10EA8HM28783 रजि०न० प्लेट UP51L3786 लगा है ।
- 5- हिरो पैसन प्रो चेसिस नं० MBLHA10BNFGE00059 , इ0न0 HA 10FTFGE00609 बिना नम्बर प्लेट ।
- 6- एक अदद नाजायज देशी तमन्चा मय एक अदद जिन्दा कारतूस ।
- 7- एक अदद टच स्क्रीन मोबाइल फोन ।
- 8- रुपये 600/- नगद ।

### अरविन्द कुमार उर्फ राज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 64 / 22 धारा 379 भादवि थाना सोनहा जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0- 53 / 22 धारा 41/411/413/419/420/467/468 / 471 भा0द0वि0 थाना भवानीगंज
3. मु0अ0सं0- 55 / 22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

### अभिषेक भट्ट उर्फ मुन्ना का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 64 / 2022 धारा 379 भादवि थाना सोनहा जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0- 053 / 22 धारा 41/411/413 / 419/420/467/468 / 471 भा0द0वि0 थाना भवानीगंज
3. मु0अ0सं0- 54 / 22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
2. उ0नि0 श्री कृपाशंकर मौर्या, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
3. उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
4. का० अमित सिंह, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
5. का० रितेश सिंह, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
6. का० आनन्द कुमार, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।
7. का० सचिन मौर्या, थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर ।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा रुपये 10,000/- नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

**प्रेस नोट - दिनांक 22.06.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर**

**आज दिनांक 22-06-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 03 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 22-06-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्श के बाद 03पत्रावाली का सफल निस्तारण संभव हुआ । 03 परिवार को बिखरने से बचाने में

महिला थाना से म०हे०का० सविता सिंह व महिला आरक्षी नेहा सिंह व महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

### निस्तारित पत्रावली का विवरण :-

1. सुनीता मौर्या पत्नी शिव कुमार मौर्या साकिन रिठिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. तजरुन्निसा पत्नी इसहाक अहमद साकिन मसेरा पोस्ट बेल्टिकर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. रुक्मिणी पत्नी अजय शर्मा सकिन पकड़ी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

### प्रेस नोट- दिनांक 22.06.2022 थाना भवानी गंज जनपद सिद्धार्थ नगर

**महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान**

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के अनुपालन में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व के दिशा निर्देश श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.06.2022 को श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला का.रीतिका त्रिपाठी व मधु वर्मा द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के संबंध में ग्राम भिटौरा में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मा.मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस आपात हेल्प लाइन, 1098 चार्ज्ड लाइन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया ।

### प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 22.06.2022

**श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के दौरान जनपद के थाना त्रिलोकपुर का निरीक्षण भी किया गया ।**

आज दिनांक 15.06.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, गोरखपुर जोन, गोरखपुर, श्री अखिल कुमार द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना त्रिलोकपुर का निरीक्षण भी किया गया । निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु

सम्बन्धित को निर्देश दिए गए । जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए एवं प्रत्येक जनशिकायत का फीडबैक स्वयं प्रभारी निरीक्षक को करने के लिए निर्देशित किया गया । पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया तथा महोदय द्वारा धर्म-गुरुओं व आम जन-मानस के साथ बैठक आयोजित कर सभी से जनपद में अपराध की रोकथाम व शान्ति-व्यवस्था में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने हेतु बताया गया व ग्राम प्रहरियों के साथ मीटिंग किया गया ।

### **प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 22.06.2022**

**आज दिनांक-22-06-2022 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन के सभागार में सैनिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों की सम्पर्क सभा लेकर उनसे रुबरु होकर उनकी समस्याओं को सुना और पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की बात कही । इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन के मीटिंग सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की धरपकड़ के सम्बन्ध में निर्देश दिए और परिवादियों की समस्याओं को सद्व्यवहार के साथ सुन कर निस्तारण की बात कही ।

अपराध गोष्ठी के दौरान अपराध-समीक्षा करते हुए टॉप-10 अपराधियों, सक्रिय अपराधियों, महिला सम्बन्धी अपराधों में वांछित अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए ।

गोष्ठी में महोदय द्वारा युवाओं द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन पर चर्चा करते हुए कहा कि समस्त अधिकारीगण युवा संगठन के क्रिया-कलापों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे ।

गोष्ठी के दौरान श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, अपर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगण/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा समस्त शाखाओं के प्रभारी भी मौजूद मौजूद रहे ।